



# कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

दिनांक : ०७/११/२२

क्रमांक: एफ.( ) सर्वे/उवस/2022/ 7090  
निमित्त

मुख्य वन संरक्षक,  
भरतपुर।

विषय:- "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road  
Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena -Bharatpur.  
(FP/RJ/OFC/47243/2020)


सन्दर्भ:- श्रीमान् द्वारा लगाये गये आक्षेप EDS दिनांक 12.10.2022.

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा अपलोड क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम 252 रूपये मजदूरी दर के अनुसार तैयार की गई थी। किन्तु वर्तमान मजदूरी दर 259 रूपये के अनुसार संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम संदर्भित EDS दिनांक 12.10.2022 द्वारा चाही गयी है।

अतः संदर्भित EDS की अनुपालना में संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम तैयार कर संलग्न सादर प्रस्तुत है।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार।


भवदीय

  
(रवि कुमार मीणा)  
उप वन संरक्षक  
भरतपुर

क्रमांक: एफ.( )/ सर्वे/उवस/2022/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, अरण्य भवन,  
जयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

  
उप वन संरक्षक  
भरतपुर

## OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OFFOREST, BHARATPUR

**Name of project:-** "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena –Bharatpur.

**Proposal NO.:-** FP/RJ/OFC/47243/2020

**CHECK LIST SERIAL NUMBER: 18**

### **"SCHEME FOR COMPENSATORY AFFORESTATION"**

Details scheme for (700 Plants) for compensatory afforestation to be carried out in lieu of 2.4597 ha. of forest area to be diverted for "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena –Bharatpur.

#### **Details of degraded forest land:-**

District – Bharatpur, village – Kair, tehsil - Bayana

Name of forest division \_DCF Bharatpur\_range\_Bayana\_

Block/compartament no \_Khareri Bagren B/1 to be afforested \_4.9194ha.\_

#### **1. Description of Area**

(1)Whether the site selected for compensatory afforestation is a land bank or not: \_no\_

(2)If the CA site is other than the land bank, reasons be given: There is no land bank established.

(3)In case of non forest area indentified for CA, then what is the distance of CA site from the adjoining forest boundary:- Nil

(4)Soil type: sandy

(5)Topography:

(a)Hilly/undulating/plain: Undulating

(b)slope:steep/medium/gentle: Gentle slope

(6)Whether the area is bearing any root stock of vegetation: yes

**2. Plantation Model:-** Copy of the approved CA Scheme/Model showing component wise physical and financial break up to be enclosed

### 3. Schedule of Plantation Programme:-

Details of year wise break up of requirements of funds is as under:-

Year	Area in ha.	Rate /ha.	Amount (in Rupees)
0 <sup>th</sup> year	4.9194	46398	228250.3212
1 <sup>st</sup> year	4.9194	42883	210958.6302
2 <sup>nd</sup> year	4.9194	13517.33	66497.1696
3 <sup>rd</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
4 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
5 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
6 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
7 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
8 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
9 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
10 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
11 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
12 <sup>th</sup> year	4.9194	6205.722	30528.4299
Total	4.9194	164855.6	810990.00

4. 4.9194 ha. Area needs to be closed With pucca boundary Wall for area specific reason And better protection of plantation. So 940 m. boundary wall need to be made. for this additional 37.6 lakh Rs are require.


**Total Cost (CA Scheme - : 8.11+37.6=45.71) lakh**

### 5. Technical details:-

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows:-

- (i) General details: The area is a degraded forest land. Scheme is prepared for 700 plants on Forest land
- (j) Spacing: 3x3 Meter
- (k) Species: Acacia Nilotica, Acacia Tortilis, Ziziphus Jujube, Acacia leucophloea etc.
- (l) Plantation method: Manual
- (m) Soil and Moisture conservation works: No
- (n) Protection (Fencing, Watch man, People's Participation etc.): Fencing
- (o) Proposed Monitoring Mechanism:- One Guard will deputed for supervision
- (p) Any other information:- Nil

(Signature)



(Ravi Kumar Meena)

Deputy Conservator of Forest  
Bharatpur